



प्रवेश प्रक्रिया

1. सभी विषयों में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित "**कट ऑफ अंक**" (प्रथम सूचना स्नातक 1 जुलाई को, प्रथम सूचना परास्नातक 8 जुलाई को), आरक्षण व संवर्ग के नियमानुसार, स्नातक प्रवेश 3 जुलाई से परास्नातक प्रवेश 10 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसमें आमंत्रित छात्रों को ही यहाँ परिसर में आना है। तदनुसार, आपका विश्वविद्यालय में स्वागत है। **कट ऑफ समाचारपत्रों/वेबसाइट/विभाग से ही देखें।**
2. प्रवेशार्थी जो अपने 1. **आधार कार्ड (अनिवार्य)** तथा 2. **सभी मूल हाईस्कूल व इंटरमीडिएट अंकपत्र व प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, वेटेज प्रमाणपत्र, जाति व आय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो (तीन वर्ष तक का मान्य), 3. योग्यतादायी परीक्षा इसी वर्ष न उत्तीर्ण होने की दशा में गैप होने व कारण संबंधी नोटरी, 4. परीक्षा फार्म में लगाए गए फोटो की दो प्रति (जो मूल फार्म पर फोटो न रहने की दशा में चिपकायेंगे)** लेकर आयें तथा — विषयानुसार निर्दिष्ट कक्ष में पहुंचें।
3. प्रवेश कक्ष में श्रेष्ठताक्रम में बुलाए जाने पर ही प्रवेशार्थी कौंसलिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों। कौंसलिंग बोर्ड द्वारा समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर उसी समय लौटा दी जाएंगी। यदि योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंकपत्र की मूल प्रति नहीं है तो हाई स्कूल के अंकपत्र की मूल प्रति संकायाध्यक्ष द्वारा तब तक के लिए रख ली जाएगी जब तक की अभ्यर्थी योग्यता प्रदायी परीक्षा अर्थात के मूल अंक पत्र/ प्रमाण पत्र दिखा कर उनकी प्रतियां संकायाध्यक्ष के पास जमा न कर दे। मूल अंक पत्र/ प्रमाण पत्र जमा होने के न्यूनतम एक माह बाद ही वापस होगा।
4. कौंसलिंग बोर्ड द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर **बिषय का आवंटन श्रेष्ठताक्रम** मे करके प्रवेशार्थी को प्रवेश स्लिप जारी कर दिया जाएगा व प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा।
5. प्रवेश होने के बाद अभ्यर्थी **फीस-स्लिप पर अंकित प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.ddugorakhpuruniversity.in से स्वयम् तीन दिन के भीतर आनलाइन जमा कर दे।** फीस केवल इसी माध्यम से आप द्वारा ऑनलाइन ही जमा होगा। फीस नही जमा होने पर प्रवेश तिथि से तीसरे दिन सांय 4 बजे आपका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायगा।
6. फीस जमा करने के बाद 1 सप्ताह के भीतर अपनी जमा रसीद विभाग में जमा करें, जिससे विभाग में आपका **पंजीकरण** हो जाए। उसी दिन लाइब्रेरी पहुंचकर **लाइब्रेरी की सदस्यता** फॉर्म भी भर लें। अगले सप्ताह लाइब्रेरी से लाइब्रेरी कार्ड भी प्राप्त कर लें। उसी समय अपने लाइब्रेरी कार्ड पर पुस्तकें प्राप्त करने के नियम व तिथियां भी नोट कर लें।
7. विभाग में जाकर अपने विषयों की पढ़ाई की **समय सारणी** जान लें। समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में पहुंचकर अपना अध्ययन **कक्षानुसार** प्रारंभ करें। सूचनाओं के लिए समय समय पर सूचना-पट, वि.वि. की वेबसाइट और स्थानीय अखबार देखते रहें।
8. विश्वविद्यालय में आपका आगमन आपके लिए और विश्वविद्यालय के लिए मंगलमय हो!

प्रो. अजेय कुमार गुप्ता, समन्वयक प्रवेश परीक्षा
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय।